



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 01] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 7—जनवरी 13, 2012 (पौष 17, 1933)
No. 01] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 7—JANUARY 13, 2012 (PAUSA 17, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं].
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 2012

सेना शाखा

सं. 1 दिनांक 2 दिसम्बर 2011—राष्ट्रपति, सहर्ष यथासंशोधित थल
सेना अधीन निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

रूपसिंह परमार (एमआर-08971ए), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005
वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 16 दिसम्बर 2003 से हो जाएगी।
(इसमें स्नातकोत्तर योग्यता (आर्थोपैडिक्स) के लिए दी गई 24 महीने की
पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु
उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी)

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 08 जनवरी 2011 में प्रकाशित
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बंध जहां तक इस अधिकारी से है,
रद्द किया जाता है।

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मा सं)

थल सेना विभाग

सं. 2, दिनांक 2 दिसम्बर 2011—थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें
जारी संशोधनों के अंतर्गत राष्ट्रपति 05 वर्ष की अवधि के लिए सहर्ष
निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेवा

सैनिक दंत चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन के पद पर (परख पर)

डीएस-12342ए के ग्यानदा मिश्रा 20 जनवरी 2009, (वेतन और
पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 20 जुलाई 2008 से दी जाती है। इसमें अस्पताल
नियुक्ति के लिए 06 माह पहले से दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो
उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

04 जुलाई 2009 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय
की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया
जाता है।

डीएस-12353एम के चन्दन मिश्रा 01 जुलाई 2009, (वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाती है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 माह पहले से दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)।

05 फरवरी 2011 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

डीएस-12392एल कैप्टन रामाकृष्णा एन 13 सितम्बर 2010, (वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 13 सितम्बर 2007 से दी जाती है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 36 माह पहले से दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)।

डीएस-12393एन के सुखदीप सिंह 13 सितम्बर 2010, (वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 13 सितम्बर 2007 से दी जाती है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 36 माह पहले से दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)।

डीएस-12397के के संदीप सिंह 27 अक्टूबर 2010, (वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 27 अक्टूबर 2007 से दी जाती है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 36 माह पहले से दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)।

महेश चन्द्र
मेजर जनरल
एडीजीडीएस

सेना शाखा

सं. 3, दिनांक 2 दिसम्बर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष यथासंशोधित थल सेना अधीन निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

लेफ्टि के पद पर (परख पर)

सौरभ तिवारी (एमआर-09170एल), एएमसी, 18 मार्च 2011

जेनिथ मोहन्ती (एमआर-09197एच), एएमसी, 18 मार्च 2011

आनन्द एन (एमआर-09201ए), एएमसी, 18 मार्च 2011

मनीश शर्मा (एमआर-09203एल), एएमसी, 18 मार्च 2011

अवधेश सिंह मलिक (एमआर-09208के), एएमसी, 18 मार्च 2011

पुष्कर मेन्दिरत्ता (एमआर-09209एम), एएमसी, 18 मार्च 2011

स्वयम तारा (एमआर-09210एफ), एएमसी, 18 मार्च 2011

सौरभ माहेश्वरी (एमआर-09211के), एएमसी, 18 मार्च 2011

राजेश कुमार मिश्रा (एमआर-09212एम), एएमसी, 18 मार्च 2011

शैलेन्द्र त्रिपाठी (एमआर-09213पी), एएमसी, 18 मार्च 2011

मधुब्रता राय (एमआर-09218एन), एएमसी, 18 मार्च 2011

थकचोम विश्वजीत सिंह (एमआर-09038एल), एएमसी, 15 मार्च 2010

बालचन्द्र मेनन (एमआर-09036ए), एएमसी, 15 मार्च 2010

आदित्य पवार (एमआर-09029के), एएमसी, 15 मार्च 2010

महेश मुरलीधरन थुंडाथिल (एमआर-09023एच), एएमसी, 15 मार्च 2010

निर्वेश सक्सेना (एमआर-09020पी), एएमसी, 15 मार्च 2010

अजय कुमार शर्मा (एमआर-09014एफ), एएमसी, 15 मार्च 2010

अमित कुमार गर्ग (एमआर-09013वाई), एएमसी, 15 मार्च 2010

कुमार आनन्द श्रुति राज (एमआर-09003पी), एएमसी, 15 मार्च 2010

फ्ला अफसर के पद पर (परख पर)

ज्योति प्रकाश मिश्रा (एमआर-09214एक्स), एएमसी, 18 मार्च 2011

श्रेयांश चौधरी (एमआर-09215ए), एएमसी, 18 मार्च 2011

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

फाईल संख्या 0632/2011/रा.कै.को. मुख्यालय/एमएस (डी)

राष्ट्रीय कैडेट कोर

सं. 4, दिनांक 5 दिसम्बर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित भूतपूर्व सहयोगी एनसीसी अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीखों से राष्ट्रीय कैडेट कोर में मेजर/लेफ्टि का अवैतनिक रैंक प्रदान करते हैं:-

एनसीसी नं., रैंक, नाम तथा निदेशालय, अवैतनिक रैंक, अवैतनिक रैंक प्रदान करने की तारीख

एनसीसी/जीडी/15316765, मेजर राजकुमारी सिंह, एनसीसी निदेशालय, यू पी, मेजर 04 दिसम्बर 2010

एनसीसी/17136, मेजर राम कुमार सिंह, एनसीसी निदेशालय, यू पी, मेजर 30 जून 2010

एनसीसी/17112, मेजर एस सी राव, एनसीसी निदेशालय, यू पी, मेजर 01 जून 2009

एनसीसीजे/जीडी/13803, चीफ आफिसर विनय सिंह, एनसीसी निदेशालय, यू पी, लेफ्टि 01 अक्टूबर 2010

एनसीसी/17424, मेजर परशु राम गुप्ता, एनसीसी निदेशालय, यू पी, मेजर 21 जून 2011

एनसीसी/14271, मेजर एस पी साथियावागीसन, एनसीसी निदेशालय, टीएन पी एवं ए एन, मेजर 30 सितम्बर 2009

एनसीसीजे/52220, चीफ आफिसर के मुरुगेसन, एनसीसी निदेशालय, टीएन पी एवं ए एन, लेफ्टि 05 मार्च 2010

एनसीसी/14335, मेजर एम अगोरम, एनसीसी निदेशालय, टीएन पी एवं ए एन, मेजर 12 अप्रैल 2010

एनसीसी/14367, मेजर एस इलागोवन, एनसीसी निदेशालय, टीएन पी एवं ए एन, मेजर 31 जुलाई 2010

एनसीसी/18073, मेजर डॉ. संतोष कुमार सिंह, एनसीसी निदेशालय, एम पी एवं सी, मेजर 10 अक्टूबर 2010

एनसीसी/16752, मेजर मनमोहन पटनायक, एनसीसी निदेशालय, उड़ीसा, मेजर 01 जुलाई 2009

एनसीसी/जीडी/16959, मेजर जेम्स जोसेफ, एनसीसी निदेशालय, के एवं एल, मेजर 31 मार्च 2010

जगमोहन वर्मा

ब्रिगे

उप महानिदेशक (एमएस)

सेना शाखा

सं. 5, दिनांक 5 दिसम्बर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:-

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समय-मान द्वारा)

आई सी सं., नाम, आर्म, सब्सर्टेंटिव तिथि

(42545वाई) करमवीर सिंह, इन्फैन्ट्री, 15 दिसम्बर 2010

(42911एक्स) अवनीश कपूर, एएडी, 08 जून 2011

(42929एन) डी कुमार, आर्टी, 08 जून 2011

(42940एम) आजाद सिंह, एएडी, 08 जून 2011

(42963एन) आर पी उपाध्याय, आर्टी, 08 जून 2011

(42979वाई) बुदेव कुमार, सिग्नल्स, 08 जून 2011

(43002वाई) एस युगराज सिंह, एएससी, 08 जून 2011

(43015डब्ल्यू) वी एस राठोर, आर्टी, 08 जून 2011

(43072एक्स) रमन मलिक, गाइर्स, 08 जून 2011

(43124एच) एल डी वी प्रसाद राव, इंजीनियर्स, 08 जून 2011

(43128वाई) वी मण्डल, इंजीनियर्स, 08 जून 2011

(43182एम) के एन पादहा, ईईसी, 08 जून 2011

(44877एफ) जी श्रीनिवासन, ईएमई, 13 जून 2011

(44891एन) एस एस लेलानी, ईएमई, 13 जून 2011

(44933पी) एस एस पाटिल, इंजीनियर्स, 13 जून 2011

(44937एल) आर सी जोशी, इंजीनियर्स, 13 जून 2011

(44945के) के ए सिद्धी, इंजीनियर्स, 13 जून 2011

(44949ए) वी एस नरायण, ईएमई, 13 जून 2011

(44971एल) एन राधाकृष्णन, ईएमई, 13 जून 2011

(44972एन) अनिल कुमार, इंजीनियर्स, 13 जून 2011

(44975एफ) आर एस हरिमथ, इंजीनियर्स, 13 जून 2011

(44983ए) राजीव सूद, इंजीनियर्स, 13 जून 2011

(44987डब्ल्यू) एस के दत्ता, इंजीनियर्स, 13 जून 2011

(42406पी) एस के कपूर, इन्फैन्ट्री, 15 दिसम्बर 2010

(42459एन) आर सी शर्मा, मैक इन्फैन्ट्री, 15 दिसम्बर 2010

(42544डब्ल्यू) मोनिल कुमार, सिग्नल्स, 15 दिसम्बर 2010

(43086एक्स) जोगिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री, 08 जून 2011

(43111एल) एम एस जे झाला, इन्फैन्ट्री, 08 जून 2011

(43120एम) जे के बोस, आर्टी, 08 जून 2011

(44897पी) ए के रे, इंजीनियर्स, 13 जून 2011

(वी-00390एन) ए वी कुलकर्णी, आर वी सी, 26 नवम्बर 2010

(44946एम) जे अख्तर, इंजीनियर्स, 13 जून 2011

(42006एक्स) जगरूप सिंह, इन्फैन्ट्री, 09 जून 2010

(42607एन) एच पी एस गिल, इन्फैन्ट्री, 15 दिसम्बर 2010

(43103एम) ललित कपिला, इन्फैन्ट्री, 08 जून 2011

(44928के) डी के अग्रवाल, इंजीनियर्स, 13 जून 2011

टी के दास

उप निदेशक

एमएस-8ए

सेना शाखा

सं. 6, दिनांक 5 दिसम्बर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित सेना चिकित्सा कोर अधिकारियों की सामने देय तिथि से पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले कर्नल के पद पर

चंदीप सिंह मखानी (एमआर-08085डब्ल्यू), एएमसी, 11 अप्रैल 2010

शावना वर्मा (एमआर-07173ए), एएमसी, 29 जून 2010
 जया कौशिक (एमआर-07338एन), एएमसी, 23 जून 2011
 रजत जैन (एमआर-07348एक्स), एएमसी, 23 जून 2011
 अविर गोगोई (एमआर-08213एच), एएमसी, 29 जुलाई 2011
 कनवल जीत कौर (एमआर-08749वाई), एएमसी, 19 जून 2010
 डी के सिंह (एमआर-07186एक्स), एएमसी, 06 जुलाई 2010
 फटीक चंद्र हांसदा (एमआर-08198वाई), एएमसी, 01 नवम्बर 2010
 रविन्दर सहदेव (एमआर-07273एल), एएमसी, 05 फरवरी 2011
 एम बी एस ग्रेवाल (एमआर-07358एफ), एएमसी, 27 जून 2011
 टी पी दिनेश (एमआर-08921पी), एएमसी, 11 फरवरी 2011
 परमिन्दर सिंह सौधी (एमआर-07831एफ), एएमसी, 24 दिसम्बर 2009

एम शैखों (एमआर-07295के), एएमसी, 05 फरवरी 2011
 जयन्त दयो (एमआर-07340एल), एएमसी, 23 जून 2011
 जे एम वर्गीस (एमआर-07343वाई), एएमसी, 23 जून 2011
 नीमा शेरपा (एमआर-07951ए), एएमसी, 01 अक्टूबर 2010
 वाई सुरेश रेड्डी (एमआर-07357वाई), एएमसी, 25 जून 2011
 नरेश बंसल (एमआर-08114ए), एएमसी, 15 जुलाई 2011
 पंकज यादव (एमआर-07359के), एएमसी, 27 जून 2011
 अशोक कुमार (एमआर-08264डब्ल्यू), एएमसी, 01 अप्रैल 2011
 आर नन्दी (एमआर-07347पी), एएमसी, 23 जून 2011
 सोमा कुमार (एमआर-07275डब्ल्यू), एएमसी, 05 फरवरी 2011
 विनोद कुमार एम एस (एमआर-07341एन), एएमसी, 23 जून 2011
 बी दत्त (एमआर-07354एल), एएमसी, 24 जून 2011

विंग कमांडर के पद पर

वैद्यानाथ पाठक (एमआर-08299एम) (26054डी), एएमसी,
 21 जून 2011

यश पांडे
 ब्रिगे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

थल सेना विभाग

सं. 7, दिनांक 07 दिसम्बर 2011--थल सेना अनुदेश 37/38 व
 उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति
 करते हैं :--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थाई कमीशन)

लेफ्टि कर्नल से कर्नल (टीएस) के पद पर

लेफ्टि कर्नल ओ पी मिश्रा (डीआर-10392एम), 06 मार्च 2011
 लेफ्टि कर्नल आर के बाली (डीआर-10388के), 14 मार्च 2011
 लेफ्टि कर्नल के वजीरावेल्लू (डीआर-10415एच), 09 मई 2011

मेजर से लेफ्टि कर्नल (तथा समकक्ष) के पद पर

सुश्री नीरू शर्मा (डीआर-10485एफ), 05 अक्टूबर 2010
 संजीव दाताना (डीआर-10498वाई), 12 अक्टूबर 2010

कैप्टन से मेजर के पद पर

कैप्टन नितेश नरेश (डीआर-10631डब्ल्यू), 24 दिसम्बर 2010

थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति,
 सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन से मेजर के पद पर

कैप्टन अमित बी माहेश्वरी (डीएस-12174एम), 26 अप्रैल 2010
 कैप्टन पुलिन बिहारी वर्मा (डीएस-12232एल), 01 फरवरी 2011

महेश चन्द्र
 मेजर जनरल
 एडीजीडीएस

थल सेना विभाग

सं. 8, दिनांक 07 दिसम्बर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एएमसी
 अधिकारी की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर के पद पर

सी मालस्वमकीमा (एमआर-9096पी), एएमसी, 13 अक्टूबर 2010
 रवि चौहान (एमआर-09104एच), एएमसी, 20 मार्च 2011

बिराज गोगई (एमएस-14787एल) (एमआर-09219डब्ल्यू),
 एएमसी, 17 फरवरी 2005

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 जून 2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय
 की अधिसूचना को सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

कप्तान के पद पर

शफीन बाबु पी एस (एमआर-08875एल), एएमसी, 11 फरवरी 2010
डिम्पल कुमारी (एमएस-15293एन) (एमआर-09158के), एएमसी,
20 फरवरी 2007 इन्टर्नशिप पूरा होने के पश्चात्

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 08 सितम्बर 2007 में प्रकाशित
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द
किया जाता है)

प्रीति गुप्ता (एमआर-08860एच), एएमसी, 11 फरवरी 2010
मोहीत मीतल (एमआर-08865एफ), एएमसी, 11 फरवरी 2010
निलाभ नयन (एमआर-08866के), एएमसी, 11 फरवरी 2010
शिफा (एमआर-08992डब्ल्यू), एएमसी, 10 फरवरी 2011
विश्वजीत सिंह थकचोम (एमआर-09038एल), एएमसी, 10 फरवरी
2011

अमन ढिल्लन (एमआर-08990एल), एएमसी, 10 फरवरी 2011
सोनल खण्डेलवाल (एमआर-08993वाई), एएमसी, 10 फरवरी 2011
रंजन कुमार (एमआर-09007एल), एएमसी, 10 फरवरी 2011
प्रिंस युवराज सिंह (एमआर-09009डब्ल्यू), एएमसी, 10 फरवरी 2011
शिवी गुप्ता (एमआर-09033एम), एएमसी, 10 फरवरी 2011
बालचन्द मेनन (एमआर-09036ए), एएमसी, 10 फरवरी 2011
आदित्य पवार (एमआर-09029के), एएमसी, 10 फरवरी 2011
महेश मुरलीधरन थुंडाथिल (एमआर-09023एच), एएमसी, 10 फरवरी
2011

निर्वेश सक्सेना (एमआर-09020पी), एएमसी, 10 फरवरी 2011
अजय कुमार शर्मा (एमआर-09014एफ), एएमसी, 10 फरवरी 2011
अमित कुमार गर्ग (एमआर-09013वाई), एएमसी, 10 फरवरी 2011
कुमार आनन्द श्रुति राज (एमआर-09003पी), एएमसी, 10 फरवरी
2011

सर्जन लेफ्टि के पद पर

प्रशांत जम्बुनाथन (एमआर-08887ए) (75999जेड), एएमसी, 10 फरवरी
2010

यश पांडे
ब्रिगे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

वायु शाखा

सं. 9, दिनांक 7 दिसम्बर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल
पदोन्नति करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

(वैमानिक इंजीनियरिंग शाखा)

एयर मार्शल के मूल रैंक में

एयर मार्शल पी कनकराज वी एस एम (15066), वै ई(एम),
01 सितम्बर 2011

उड़न शाखा

एयर मार्शल के मूल रैंक में

एयर मार्शल पी एस गिल एवीएसएम वीएन (14097), उड़न(पा),
22 जुलाई 2011

एयर मार्शल एम माधेश्वरन एवीएसएम वीएम (14104), उड़न(पा),
01 अगस्त 2011

एयर कमोडोर के मूल रैंक में

एयर कमोडोर एस के झा (17445) उड़न(पा), 12 जुलाई 2011
(कल्पित वरीयता 30 दिसम्बर 2010)

[संयुक्त वरीयता सूची में इनका नाम एयर कमोडोर जे चलपती (17358)
उड़न(पा) के ऊपर एवं एयर कमोडोर जी एस बेदी (17448) उड़न(पा)
के नीचे आएगा]

एयर कमोडोर पी ई पतन्जे (17706) उड़न(पा), 25 जुलाई 2011
(कल्पित वरीयता 30 दिसम्बर 2010)

[संयुक्त वरीयता सूची में इनका नाम एयर कमोडोर वी सिंह (17699)
उड़न(पा) के ऊपर एवं एयर कमोडोर एन बी साठे (17708) उड़न(पा) के
नीचे आएगा]

प्रशासनिक शाखा

एयर कमोडोर (प्रशासनिक शाखा) के मूल रैंक में

रैंक, नाम, संख्या, शाखा तथा दिनांक

एयर कमोडोर पी आर सिन्हा (16257), प्रशासनिक, 04 अप्रैल 2011
एयर कमोडोर ओ ई एम मेनन (16422), प्रशासनिक, 04 अप्रैल
2011

एयर कमोडोर एच एन भागवत (16423), प्रशासनिक, 02 मई 2011

एयर कमोडोर डी पी पाणी (16428), प्रशासनिक, 30 जून 2011
(काल्पनिक वरीयता 02 मई 2011)

एयर कमोडोर एन जैन (16642), प्रशासनिक, 02 मई 2011

एयर कमोडोर एस के डे (17030), प्रशासनिक, 02 मई 2011

एयर कमोडोर एम एस जी मेनन (17035), प्रशासनिक, 01 जून 2011

एयर कमोडोर एन के शर्मा (17038), प्रशासनिक, 01 जुलाई 2011

वैमानिक इंजीनियरिंग शाखा

एयर कमोडोर के मूल रैंक में

एयर कमोडोर ए के गुप्ता (16942), वै ई(या), 01 अप्रैल 2011

एयर कमोडोर एस सिंह (16941), वै ई(वै), 02 मई 2011
 एयर कमोडोर ए के बारिक (17122), वै ई(या), 16 मई 2011
 एयर कमोडोर एम के गुलेरिआ (17130), वै ई(या), 16 मई 2011
 एयर कमोडोर एम एस शेखावत (17116), वै ई(वै), 16 मई 2011

ए के सिंह
 उप निदेशक कार्मिक अधिकारी-2(बी)

सेना शाखा

सं. 10, दिनांक 08 दिसम्बर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :-

नियमित सेना
 स्थायी कमीशन
 कप्तान के पद पर

बिराज गोगई (एमएस-14787एल) (एमआर-09219डब्ल्यू), एएमसी, 17 फरवरी 2004, वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 17 फरवरी 2001 से हो जाएगी (इसमें मास्टर आफ सर्जरी के लिए दी गई 36 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी)

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 15 अप्रैल 2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

लवराग गोयल (एमएस-15855ए) (एमआर-09223वाई), एएमसी, 12 अगस्त 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 22 अगस्त 2009 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

नेहार काकरिया (एमएस-15743ए) (एमआर-09222डब्ल्यू), एएमसी, 25 अप्रैल 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 जुलाई 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

सौमिक पात्रा (एमएस-15906एच) (एमआर-09221एन), एएमसी, 12 अगस्त 2008, वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 12 फरवरी 2008 से हो जाएगी (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी)

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 13 मार्च 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

गौरव राठी (एमएस-15918एक्स) (एमआर-09220एल), एएमसी, 12 अगस्त 2010

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 02 जनवरी 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की दिनांक 25 जून 2010 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

लेफ्टिनेन्ट के पद पर

डिम्पल कुमारी (एमएस-15293एन) (एमआर-09158के), एएमसी, 13 मार्च 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 मई 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

यश पांडे
 ब्रिगे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

थल सेना विभाग

सं. 11, दिनांक 08 दिसम्बर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को उनके निजी कारणवश निवेदन पर समयपूर्व सेवा निवृत्ति, उनके नाम के समक्ष लिखी तिथि से, अनुमति प्रदान करते हैं :-

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

स्थाई कमीशन

निवृत्ति

लेफ्टि जनरल एस बी सहजपाल (डीआर-10270एच), 11 मार्च 2011 (सायं)

कर्नल (टीएस) पी के आर्या (डीआर-10318एल), 30 जून 2011 (सायं)

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को उनके निजी कारणवश निवेदन पर समयपूर्व सेवा निवृत्ति, उनके नाम के समक्ष लिखी तिथि से, अनुमति प्रदान करते हैं :-

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

स्थाई कमीशन

समय पूर्व निवृत्ति

ब्रिगे रामेन सिन्हा (डीआर-10344एम), 21 अप्रैल 2011 (सायं)

लेफ्टि कर्नल विशाल सिवाच (डीआर-10472के), 30 जून 2011 (सायं)

लेफ्टि कर्नल ए. चटर्जी (डीआर-10397एल), 12 जुलाई 2011 (सायं)
लेफ्टि कर्नल मंजीत कुमार (डीआर-10381ए), 31 अक्टूबर 2010
(सायं)

सेना शाखा

सं. 14, दिनांक 09 दिसम्बर 2011---

महेश चन्द्र
मेजर जनरल
एडीजीडीएस

शुद्धि-पत्र

मेजर से लेफ्टि कर्नल

(सेना शाखा)

सं. 12, दिनांक 08 दिसम्बर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित की सहर्ष
पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

लेफ्टि कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में

शुद्धि-पत्र

के स्थान पर :

क्रम सं., वैयक्तिक सं., नाम, आर्म तथा मूल रैंक की तिथि

173. आईसी-48713 हरपाल सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2009 किन्तु
वरिष्ठता प्रभावी 10 जनवरी 2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले
पढ़ा जाए :

173. आईसी-48713 हरपाल सिंह गिल, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2009 किन्तु
वरिष्ठता प्रभावी 10 जनवरी 2009 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले

टी के दास
उप निदेशक
एमएस-8ए

सेना शाखा

सं. 13, दिनांक 09 दिसम्बर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित सेना
चिकित्सा कोर अधिकारी के सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर के पद पर

शुद्धि-पत्र

भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 08 जनवरी 2011 में प्रकाशित रक्षा
मंत्रालय की अधिसूचना में रूपसिंह परमार (एमआर-08971ए), एएमसी,
की पदोन्नति :--

के स्थान पर :

यह पढ़ा जाए

16.12.2009

16.12.2007

यश पांडे
ब्रिगे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

भारत के राजपत्र में दिनांक 24 दिसम्बर 2005 के शीर्षक "नियमित
सेना, स्थायी कमीशन" एवं उप शीर्षक "मेजर से लेफ्टि कर्नल" के अधीन
प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के बदले : आईसी-48713 हरपाल सिंह, इन्फैन्ट्री

पढ़ा जाए : आईसी-48713 हरपाल सिंह गिल, इन्फैन्ट्री

कप्तान से मेजर

भारत के राजपत्र में दिनांक 11 नवम्बर 2000 के शीर्षक "नियमित
सेना, स्थायी कमीशन" एवं उप शीर्षक "कप्तान से मेजर" के अधीन प्रकाशित
रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के बदले : आईसी-48713 हरपाल सिंह, इन्फैन्ट्री

पढ़ा जाए : आईसी-48713 हरपाल सिंह गिल, इन्फैन्ट्री

लेफ्टि से कप्तान

भारत के राजपत्र संख्या 810/94 में दिनांक 01 अक्टूबर 1994 के
शीर्षक "नियमित सेना, स्थायी कमीशन" एवं उप शीर्षक "लेफ्टि से कप्तान"
के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया
जाता है :--

के बदले : आईसी-48713 हरपाल सिंह, इन्फैन्ट्री

पढ़ा जाए : आईसी-48713 हरपाल सिंह गिल, इन्फैन्ट्री

द्वितीय लेफ्टि से लेफ्टि

भारत के राजपत्र संख्या 394/93 के शीर्षक "नियमित सेना, स्थायी
कमीशन" एवं उप शीर्षक "द्वितीय लेफ्टि से लेफ्टि" के अधीन प्रकाशित रक्षा
मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के बदले : आईसी-48713 हरपाल सिंह, इन्फैन्ट्री

पढ़ा जाए : आईसी-48713 हरपाल सिंह गिल, इन्फैन्ट्री

प्रभात रॉस
उप निदेशक
एमएस-8सी

सेना शाखा
सं. 15, दिनांक 09 दिसम्बर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित की सहर्ष
नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(2/लेफ्टि के पद पर दिनांक 10 जनवरी 1989 से)

शुद्धि-पत्र

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेवा के
अन्तर्गत उपशीर्षक स्थाई आयोग लेफ्टि के पद पर, के अन्तर्गत दिनांक 17 मार्च

1990 को 84 आर सी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना निम्नलिखित
रूप में संशोधित की जाती है :--

के लिए : डी/23010 आईसी-48713एच, हरपाल सिंह, इन्फैन्ट्री

पढ़े : डी/23010 आईसी-48713एच, हरपाल सिंह गिल, इन्फैन्ट्री

राहुल सांगवान
लेफ्टि कर्नल
एएमएस-8बी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 7th January 2012

ARMY BRANCH

No. 1, dated 2nd December 2011—The President is pleased to make the appointment as under :—

REGULAR ARMY
(PERMANENT COMMISSION)

To be Capt

Rupsingh Parmar (MR-08971A), AMC, 16 Dec 2005 with seniority for pay and promotion from 16 Dec 2003 (this includes 24 months for antedate for P G Diploma in Orthopaedics which will not count for gratuity)

(MoD Notification published in Gazette of India dated 08 Jan 2011 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

YASH PANDE

Brig
Dy DG AFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 2, dated 2nd December 2011—The President is pleased to make the following appointment under AI 15/79 as amended :—

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
(SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Capt (On Prob)

Capt Gyanda Mishra (DS-12342A), 20 Jan 2009 with seniority for pay and promotion from 20 Jul 2008 (this includes 06 months for antedate for paid job of Lecturer in Army College of Dental Sciences, Secunderabad for the period from 12 Feb 2008 to 24 Dec 2008 which will not count for gratuity)

(Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India dated 04 Jul 2009 in so far as it pertains to the officer is hereby cancelled)

Capt Chandan Mishra (DS-12353M), 01 Jul 2009 with seniority for pay and promotion from 01 Jan 2009 (this includes 06 months for antedate for paid job of House Staff in Dr. AR Ahmed Dental College & Hospital, Kolkata for the period from 01 Aug 2007 to 31 Oct 2008 which will not count for gratuity)

(Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India dated 05 Feb 2011 in so far as it pertains to the officer is hereby cancelled)

Capt Ramakrishna N (DS-12392L), 13 Sep 2010 with seniority for pay and promotion from 13 Sep 2007 (this includes 36 months for antedate for acquiring MDS degree from SDM College of Dental Sciences & Hospital, Dharwad for the period from May 2006 to May 2009 which will not count for gratuity)

To be Capt (On Prob)
(Antedate of Commission)

Capt Sukhdeep Singh (DS-12393N), 13 Sep 2010 with seniority for pay and promotion from 13 Sep 2007 (this includes 36 months for antedate for acquiring MDS degree from JSS Dental College and Hospital, Mysore, Karnataka, which will not count for gratuity)

Capt Sandeep Singh (DS-12397K), 27 Oct 2010 with seniority for pay and promotion from 27 Oct 2007 (this includes 36 months for antedate for acquiring MDS degree from Manipal College of Dental Sciences, Manipal University for the period from 01 May 2006 to 01 May 2009 which will not count for gratuity)

MAHESH CHANDER

Maj Gen
Addl DGDS

ARMY BRANCH

No. 3, dated 2nd December 2011—The President is pleased to make the following appointments under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY
(PERMANENT COMMISSION)

To be Lt (On Prob)

Saurabh Tiwari (MR-09170L), AMC, 18 Mar 2011

Zenith Mohanty (MR-09197H), AMC, 18 Mar 2011

Anand N (MR-09201A), AMC, 18 Mar 2011

Manish Sharma (MR-09203L), AMC, 18 Mar 2011

Avadhesh Singh Malik (MR-09208K), AMC, 18 Mar 2011

Pushkar Mendiratta (MR-09209M), AMC, 18 Mar 2011

Swayam Tara (MR-09210F), AMC, 18 Mar 2011

Saurabh Maheshwari (MR-09211K), AMC, 18 Mar 2011

Rajesh Kumar Mishra (MR-09212M), AMC, 18 Mar 2011

Shailendra Tripathi (MR-09213P), AMC, 18 Mar 2011

Madhubrata Ray (MR-09218N), AMC, 18 Mar 2011

Thokcham Bishwajit Singh (MR-09038L), AMC, 15 Mar 2010

Balachandra Menon (MR-09036A), AMC, 15 Mar 2010

Aditya Pawar (MR-09029K), AMC, 15 Mar 2010

Mahesh Muraleedharan Thundathil (MR-09023H), AMC, 15 Mar 2010

Nirbhesh Saxena (MR-09020P), AMC, 15 Mar 2010

Ajay Kumar Sharma (MR-09014F), AMC, 15 Mar 2010

Amit Kumar Garg (MR-09013Y), AMC, 15 Mar 2010

Kumar Anand Shruti Raaj (MR-09003P), AMC, 15 Mar 2010

To be Fg Offr (On Prob)

Jyoti Prakash Mishra (MR-09214X), AMC, 18 Mar 2011

Shreyansh Chowdhry (MR-09215A), AMC, 18 Mar 2011

YASH PANDE
Brig
Dy DG AFMS (HR)

File No. 0632/2011/NCC HQ/MS(D)

No. 4, dated 5th December 2011—The President is pleased to grant honorary rank of Major/Lieutenant in the NCC to the following Ex-Associate NCC Officers, from the dates mentioned against the name of each of them:—

NCC No., Rank, Name, and Dte, Honorary Rank awarded and Date from which awarded

NCC/GD/15316765, Maj, Raj Kumari Singh, NCC Dte, UP, Major, 04 Dec 2010

NCC/17136, Maj, Ram Kumar Singh, NCC Dte, UP, Major, 30 Jun 2010

NCC/17112, Maj, SC Rao, NCC Dte, UP, Major, 01 Jun 2009

NCCJ/13803, Chief Officer, Vinai Singh, NCC Dte, UP, Lieutenant, 01 Oct 2010

NCC/17424, Maj, Prashu Ram Gupta, NCC Dte, UP, Major, 21 Jun 2011

NCC/14271, Maj, SP Sathiyageesan, NCC Dte, TN P&AN, Major, 30 Sep 2009

NCCJ/52220, Chief Officer K Murugesan, NCC Dte, TN P&AN, Lieutenant, 05 Mar 2010

NCC/14335, Maj, M Agoram, NCC Dte, TN P&AN, Major, 12 Apr 2010

NCC/14367, Maj, S Elangovan, NCC Dte, TN P&AN, Major, 31 Jul 2010

NCC/18073, Maj, Dr. Santosh Kumar Singhai, NCC Dte, MP&C, Major, 10 Oct 2010

NCC/16752, Maj, Mana Mohan Patnaik, NCC Dte, Orissa, Major, 01 Jul 2009

NCC/16959, Maj, James Joseph, NCC Dte, K&L, Major, 31 Mar 2010

JAGMOHAN VERMA
Brig
Dy Dir Gen (MS)

ARMY BRANCH

No. 5, dated 5th December 2011—The President is pleased

to make the following promotions:—

REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION

Lt Col to be Subs Col (By Time Scale)

(IC-42545Y) Lt Col Karamveer Singh, Inf, 15 Dec 2010

(IC-42911X) Lt Col Avnish Kapur, AAD, 08 Jun 2011

(IC-42929N) Lt Col D Kumar, Arty, 08 Jun 2011

(IC-42940M) Lt Col Azad Singh, AAD, 08 Jun 2011

(IC-42963N) Lt Col RP Upadhaya, Arty, 08 Jun 2011

(IC-42979Y) Lt Col Bhudeo Kumar, Sigs, 08 Jun 2011

(IC-43002Y) Lt Col S Yuvraj Singh, ASC, 08 Jun 2011

(IC-43015W) Lt Col BS Rathore, Arty, 08 Jun 2011

(IC-43072X) Lt Col Raman Malik, Guards, 08 Jun 2011

(IC-43124H) Lt Col LDV Prasad Rao, Engrs, 08 Jun 2011

(IC-43128Y) Lt Col B Mondal, Engrs, 08 Jun 2011

(IC-43182M) Lt Col KN Padha, AEC, 08 Jun 2011

(IC-44877F) Lt Col G Srinivasan, EME, 13 Jun 2011

(IC-44891N) Lt Col SS Lelani, EME, 13 Jun 2011

(IC-44933P) Lt Col SS Patil, Engrs, 13 Jun 2011

(IC-44937L) Lt Col RC Joshi, Engrs, 13 Jun 2011

(IC-44945K) Lt Col KA Siddiqui, Engrs, 13 Jun 2011

(IC-44949A) Lt Col BS Narayan, EME, 13 Jun 2011

(IC-44971L) Lt Col N Radhakrishnan, EME, 13 Jun 2011

(IC-44972N) Lt Col Anil Kumar, Engrs, 13 Jun 2011

(IC-44975F) Lt Col RS Hiremath, Engrs, 13 Jun 2011

(IC-44983A) Lt Col Rajeev Sood, Engrs, 13 Jun 2011

(IC-44987W) Lt Col SK Datta, Engrs, 13 Jun 2011

(IC-42406P) Lt Col SK Kapur, Inf, 15 Dec 2010

(IC-42459N) Lt Col RC Sharma, Mech Inf, 15 Dec 2010

(IC-42544W) Lt Col Monil Kumar, Sigs, 15 Dec 2010

(IC-43086X) Lt Col Joginder Singh, Inf, 08 Jun 2011

(IC-43111L) Lt Col MSJ Jhala, Inf, 08 Jun 2011

(IC-43120M) Lt Col JK Bose, Arty, 08 Jun 2011

(IC-44897P) Lt Col AK Ray, Engrs, 13 Jun 2011

(V-00390N) Lt Col AV Kulkarni, RVC, 26 Nov 2010

(IC-44946M) Lt Col J Akhtar, Engrs, 13 Jun 2011

(IC-42006X) Lt Col Jagrup Singh, Inf, 09 Jun 2010

(IC-42607N) Lt Col HPS Gill, Inf, 15 Dec 2010

(IC-43103M) Lt Col Lalit Kapila, Inf, 08 Jun 2011

(IC-44928K) Lt Col DK Agrawal, Engrs, 13 Jun 2011

TK DAS
Dy Dir
MS 8A

Sqn Ldr to Wg Cdr

Baidyanath Pathak (MR-08299M) (26054T), AMC, 21 Jun 2011

YASH PANDE
Brig
Dy DG AFMS(HR)

ARMY BRANCH

No. 6, dated 5th December 2011—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC officers with effect from the date mentioned against their names:—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

Maj to be Lt Col

Chandeep Singh Makhani (MR-08085W), AMC, 11 Apr 2010

Bhavna Verma (MR-07173A), AMC, 29 Jun 2010

Jaya Kaushik (MR-07338N), AMC, 23 Jun 2011

Rajat Jain (MR-07348X), AMC, 23 Jun 2011

Abir Gogoi (MR-08213H), AMC, 29 Jul 2011

Kanwaljit Kaur (MR-08749Y), AMC, 19 Jun 2010

DK Singh (MR-07186X), AMC, 06 Jul 2010

Fatick Chandra Hansda (MR-08198Y), AMC, 01 Nov 2010

Ravinder Sahdev (MR-07273L), AMC, 05 Feb 2011

MBS Grewal (MR-07358F), AMC, 27 Jun 2011

TP Dinesh (MR-08921P), AMC, 11 Feb 2011

Parminder Singh Sodhi (MR-07831F), AMC, 24 Dec 2009

M Shaikhoo (MR-07295K), AMC, 05 Feb 2011

Jayant Deo (MR-07340L), AMC, 23 Jun 2011

JM Varghese (MR-07343Y), AMC, 23 Jun 2011

Nima Sherpa (MR-07951A), AMC, 01 Oct 2010

Y Suresh Reddy (MR-07357Y), AMC, 25 Jun 2011

Naresh Bansal (MR-08114A), AMC, 15 Jul 2011

Pankaj Yadav (MR-07359K), AMC, 27 Jun 2011

Ashok Kumar (MR-08264W), AMC, 01 Apr 2011

R Nandy (MR-07347P), AMC, 23 Jun 2011

Soma Kumar (MR-07275W), AMC, 05 Feb 2011

Vinod Kumar MS (MR-07341N), AMC, 23 Jun 2011

B Datt (MR-07354L), AMC, 24 Jun 2011

ARMY BRANCH

No. 7, dated 7th December 2011—The President is pleased to make the following promotion under AI 37/78 as amended :—

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
PERMANENT COMMISSION

Lt Col to be Col (TS)

Lt Col OP Mishra (DR-10392M), 06 Mar 2011

Lt Col RK Bali (DR-10388K), 14 Mar 2011

Lt Col K Vajiravellu (DR-10415H), 09 May 2011

Maj to be Lt Col (& equivalent)

Lt Col (Ms) Neeru Sharma (DR-10485F), 05 Oct 2010

Lt Col Sanjeev Datana (DR-10498Y), 12 Oct 2010

Capt to be Maj

Capt Nitesh Naresh (DR-10631W), 24 Dec 2010

The President is pleased to make the following promotion under AI 15/79 as amended :—

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
SHORT SERVICE COMMISSION

Capt to be Maj

Capt Amit B Maheshwari (DS-12174M), 26 Apr 2010

Capt Pulin Bihari Verma (DS-12232L), 01 Feb 2011

MAHESH CHANDER
Maj Gen
Addl DGDS

ARMY BRANCH

No. 8, dated 7th December 2011—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC officers with effect from the date mentioned against him/her :—

PERMANENT COMMISSION

To be Maj

C Malsawmkima (MR-09096P), AMC, 13 Oct 2010

Ravi Chauhan (MR-09104H), AMC, 20 Mar 2011

Biraj Gogoi (MS-14787L) (MR-09219W), AMC, 17 Feb 2005

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Jun 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

To be Capt

Shafin Babu PS (MR-08875L), AMC, 11 Feb 2010

Dimple Kumari (MS-15293N) (MR-09158K), AMC, 20 Feb 2007 on completion of internship

(MoD Notification published in Gazette of India dated 08 Sep 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Preeti Gupta (MR-08860H), AMC, 11 Feb 2010

Mohit Mittal (MR-08865F), AMC, 11 Feb 2010

Neelabh Nayan (MR-08866K), AMC, 11 Feb 2010

Shifa (MR-08992W), AMC, 10 Feb 2011

Thokchom Bishwajit Singh (MR-09038L), AMC, 10 Feb 2011

Capt Amen Dhillon (MR-08990L), AMC, 10 Feb 2011

Capt Sonal Khandelwal (MR-08993Y), AMC, 10 Feb 2011

Capt Ranjan Kumar (MR-09007L), AMC, 10 Feb 2011

Capt Prince Yuvraj Singh (MR-09009W), AMC, 10 Feb 2011

Capt Shivi Gupta (MR-09033M), AMC, 10 Feb 2011

Balachandra Menon (MR-09036A), AMC, 10 Feb 2011

Aditya Pawar (MR-09029K), AMC, 10 Feb 2011

Mahesh Muraleedharan Thundathil (MR-09023H), AMC, 10 Feb 2011

Nirbhesh Saxena (MR-09020P), AMC, 10 Feb 2011

Ajay Kumar Sharma (MR-09014F), AMC, 10 Feb 2011

Amit Kumar Garg (MR-09013Y), AMC, 10 Feb 2011

Kumar Anand Shruti Raaj (MR-09003P), AMC, 10 Feb 2011

To be Surg Lt

Prashant Jambunathan (MR-08887A)(75999Z), AMC, 11 Feb 2010

YASH PANDE

Brig

Dy DG AFMS (HR)

AIR BRANCH

No. 9, dated 7th December 2011—The President is pleased to make the following Substantive Promotions :—

INDIAN AIR FORCE

AE BRANCH

To be Subs Air Mshl

Air Mshl P Kanakaraj VSM (15066), AE(M), 01 Sep 2011

Air Mshl PS Gill AVSM VM (14097), F(P), 22 Jul 2011

Air Mshl M Matheswaran AVSM VM (14104), F(P), 01 Aug 2011

FLYING BRANCH

To be Subs Air Cmde

Air Cmde SK Jha (17445), F(P), 12 Jul 2011 (NS-30 Dec 2010) his name will appear below Air CMDE J Chalapati (17358), F(P) and above Air CMDE GS Bedi (17448), F(P) in the combined gradation list.

Air Cmde PE Patange (17706) F(P), 25 Jul 2011 (NS-30 Dec 2010) his name will appear below Air CMDE V Singh (17699), F(P) and above Air CMDE NB Sathe (17708), F(P) in the combined gradation list.

ADM BRANCH

To be Subs Air Cmde

Air Cmde PR Sinha (16257) ADM, 04 Apr 2011

Air Cmde Oem Menon (16422) ADM, 04 Apr 2011

Air Cmde HN Bhagwat (16423) ADM, 02 May 2011

Air Cmde DP Pani (16428) ADM, 30 Jun 2011 (NS-02 May 2011)

Air Cmde N Jain (16642) ADM, 02 May 2011

Air Cmde SK Dey (17030) ADM, 02 May 2011

Air Cmde MSG Menon (17035) ADM, 01 Jun 2011

AE BRANCH

To be Subs Air Cmde

Air Cmde NK Sharma (17038) ADM, 01 Jul 2011

Air Cmde AK Gupta (16942) AE(M), 01 Apr 2011

Air Cmde S Singh (16941) AE(L), 02 May 2011

Air Cmde AK Barik (17122) AE(M), 16 May 2011

Air Cmde MK Guleria (17130) AE(M), 16 May 2011

Air Cmde MS Shekhawat (17116) AE(L), 16 May 2011

AK SINGH

Dy Dir Personnel (Officer)-2B

ARMY BRANCH

No. 10, dated 8th December 2011—The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 27 Dec 2010 and to grant him/her Permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Capt

Biraj Gogoi (MS-14787L) (MR-09219W), AMC, 17 Feb 2004 with seniority for pay and promotion from 17 Feb 2001

this includes 36 months antedate for Master of Surgery which will not count for gratuity.

(MoD Notification published in Gazette of India dated 15 Apr 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Lovraj Goyal (MS-15855A)(MR-09223Y), AMC, 12 Aug 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 22 Aug 2009 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Neha Kakria (MS-15743A)(MR-09222W), AMC, 25 Apr 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Jul 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Soumik Patra (MS-15906H)(MR-09221N), AMC, 12 Aug 2008 with seniority for pay and promotion from 12 Feb 2008 (this includes 06 months for antedate for hospital appointment which will not count for gratuity).

(MoD Notification published in Gazette of India dated 13 Mar 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Gaurav Rathi (MS-15918X)(MR-09220L), AMC, 12 Aug 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 02 Jan 2010 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 25 Jun 2010 and to grant him/her Permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

**REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION**

To be Lt

Dimple Kumari (MS-15293N)(MR-09158K), AMC, 13 Mar 2006

(MoD Notification published in Gazette of India dated 12 May 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

YASH PANDE
Brig
Dy DG AFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 11, dated 8th December 2011—The President is pleased to permit the undermentioned AD Corps Gen Officer to retire from Army Services, wef the date shown against his name, on completion of two years of tenure as Lt Gen :—

**REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
PERMANENT COMMISSION**

Retirement

Lt Gen SB Sehajpal (DR-10270H), 11 Mar 2011 (AN)

Col (TS) PK Arya (DR-10318L), 30 Jun 2011 (AN)

The President is pleased to permit the undermentioned AD Corps Officer to premature retire from Army Service at his own request wef the date shown against his name :—

**REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
PERMANENT COMMISSION**

Premature Retirement

Brig Ramen Sinha (DR-10344M), 21 Apr 2011 (AN)

Lt Col Vishal Siwach (DR-10472K), 30 Jun 2011 (AN)

Lt Col A Chatterjee (DR-10397L), 12 Jul 2011 (AN)

Lt Col Manjit Kumar (DR-10381A), 31 Oct 2010 (AN)

MAHESH CHANDER
Maj Gen
Addl DGDS

ARMY BRANCH

CORRIGENDUM

No. 12, dated 8th December 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

**REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION**

Lt Col to be Subs Col (by Selection)

FOR

Ser, Pers No., Name, Arm/Service and Subs Col

173 (IC-48713) Harpal SG, Inf, 01 May 2009 but seniority with effect from 10 Jan 2009 without effect on pay & pension.

READ

Ser, Pers No., Name, Arm/Service and Subs Col

173 (IC-48713) Harpal Singh Gill, Inf, 01 May 2009 but seniority with effect from 10 Jan 2009 without effect on pay & pension.

TK DAS
Dy Dir
MS-8A

ARMY BRANCH

CORRIGENDUM

No. 13, dated 9th December 2011—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned

AMC officer with effect from the date mentioned against him/her :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

Capt to be Maj

The date of promotion in respect of Rupsing Parmar (MR-08971A), AMC at the gazette notification published on 08 Jan 2011 is amended as follows :—

FOR : with effect from 16 Dec 2009
READ : with effect from 16 Dec 2007

YASH PANDE
Brig
Dy DG AFMS (HR)

ARMY BRANCH

CORRIGENDA

No. 14, dated 9th December 2011—

Maj to be Lt Col

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 24 Dec 2005 under the heading “Regular Army, Permanent Commission” and sub heading “Maj to be Lt Col” the following amendment is made :—

FOR : (IC-48713) Harpal Singh, Inf
READ : (IC-48713) Harpal Singh Gill, Inf
Capt to be Maj

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 11 Nov 2000 under the heading “Regular Army, Permanent Commission” and sub heading “Capt to be Maj” the following amendment is made :—

FOR : (IC-48713) Harpal Singh, Inf
READ : (IC-48713) Harpal Singh Gill, Inf
Lt to be Capt

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification No. 810/94 and published on 01 Oct 1994 under the heading

“Regular Army, Permanent Commission” and sub heading “Lt to be Capt” the following amendment is made :—

FOR : (IC-48713) Harpal Singh, Inf
READ : (IC-48713) Harpal Singh Gill, Inf
2nd Lt to be Lt

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification No. 394/93 under the heading “Regular Army, Permanent Commission” and sub heading “2nd Lt to be Lt” the following amendment is made :—

FOR : (IC-48713) Harpal Singh, Inf
READ : (IC-48713) Harpal Singh Gill, Inf

PRABHAT ROSS
Dy Dir
MS-8C

ARMY BRANCH

CORRIGENDUM

No. 15, dated 9th December 2011—The President is pleased to make the following appointment :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

To be 2/Lt wef 10 Jan 1989

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published in the Gazette of India dated 17 Mar 1990 under the heading “Permanent Commission” in the Regular Army is hereby amended as under :—

FOR : (D-23010) (IC-48713H) Harpal Singh, Inf
READ : (D-23010) (IC-48713H) Harpal Singh Gill, Inf

RAHUL SANGWAN
Lt Col
AMS 8B